

@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट- सराहनीय कार्य –दिनांक 30.05.2022

थाना मिर्जापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता,

अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड, 04 अवैध असलहा मय 14 कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार !

श्री एस0 आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र का कारोबार करने वाले, टाप-10, क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये अपराधियो , वाछित एवं वारंटी अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम अभियान एवं प्रचलित अभियान “आपरेशन पाताल” के अन्तर्गत श्री संजीव कुमार वाजपेई, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्री मस्सा सिंह, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण तथा श्री अरविन्द कुमार थानाध्यक्ष मिर्जापुर के नेतृत्व मे थाना मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली ।

दिनांक 29.05.2022 को प्रातः 06.00 बजे थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम नवादा पूर्वी से अभियुक्त राकेश के घर के पास बनी झोपड़ी मे अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करते हुए गिरफ्तार किया गया । मौके से एक अदद तमंचा 12 बोर निर्मित, एक पौनिया 315 बोर व दो अधबने तमंचे 12 बोर व 14 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 06 नाल 12 बोर छोटी बडी व भारी मात्रा मे शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किये गये । इस सम्बन्ध मे थाना मिर्जापुर पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-राकेश पुत्र शिवराम निवासी ग्राम नवादा पूर्वी थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

1-एक निर्मित पोनिया 315 बोर

2-एक अदद तमंचा 12 बोर निर्मित

3-दो अधबने तमंचे 12 बोर

4- 14 खोखा कारतूस विभिन्न बोर (04 खोखा कारतूस 12 बोर व 10 खोखा कारतूस 315 बोर

5- 06 नाल 12 बोर छोटी बडी

6-भारी मात्रा मे शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद ।

पूछताछ विवरण:-

अभियुक्त राकेश उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह चोरी छिपे अवैध असलाह बनाकर व रिपेयर कर उन्हे चार से पांच हजार रूपये में चोरी छिपे जनपद शाहजहाँपुर व आसपास के लोगो को बिक्री कर देता है तथा रिपेयरिंग के भी 1500 से 2000 रूपये लेकर अवैध असलाहो की रिपेयरिंग करता है ।

पंजीकृत अभियोग विवरण:-

1-मु0अ0सं0 176/2022 धारा 3/5/25 आम्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 राजपाल सिंह
2. उ0नि0 विपिन कुमार शर्मा
3. का 2506 जसवीर सिंह
4. का0 2686 मनीष कुमार
5. का0 2246 सोनू
6. का0 2545 जोनी यादव
7. का0 1745 अनिकेत कुमार